| 21405              | 16   | O4032         | 04032   | 21405   |
|--------------------|--|---------------|---|---|
|                    | <b>GROUP - C</b>   |               | 201   | 9(Even)   |
|                    |  |               | Time : 3Hrs.  | Sem - IV / EC   |
| Answer all Fi      | ve Questions.  | 5x8 = 40      |   | <b>BCT And SE</b>   |
| सभी पाँच प्रश      | नों के उत्तर दें।  | 540 10        | Full I  | Marks : 80  |
| 7. Define an       | nd explain TDMA.   | 8             | Pass  | Marks : 26  |
| TDMA d             | ने परिभाषा और व्याख्या व                                 | <b>करें</b> । | Answer all 20 questions   | from <b>Group</b> A, each question                              |
|                    |  |               | carri   | es 1 marks.   |
|                    | OR(अथवा)<br>Define and explain Johnson noise and transis |               | ग्रुप-A से सभी 20 प्रश्नों के र   | उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अक है।                       |
| Define a           | nd explain Johnson noise a                               | nd transist   | Answer all Five question  | ns from <b>Group B</b> , each question                          |
| time nois          | -  | nd transist   | Answer all <b>Five</b> questions<br>carrie<br>ग्रुप–B से सभी पाँच प्रश्नों के उ | ies 4marks.   |
| जॉनसन              | न्ओयाईज तथा ट्रांजिट–ट                                   | ाइम न्ओयाईज   | ग्रुप–B से सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न का मान 4 अंक है      |   |
|                    | या और परिभाषा करें।                                      |               | Answer all <b>Five</b> question   | ns from <b>Group C</b> , each question                          |
| 8. Discuss t       | he requirements of record                                | ing room.     | carr  | ies <b>8</b> marks.   |
| रिकॉडिंग           | कमरे की क्या-क्या जरूर                                   | 8             | ग्रुप—C से सभी पाँच प्रश्नों के र   | उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न का मान 8 अंक है।                     |
| विवेचना            | <b>ቀ</b> ላ   |               | All parts of a question m   | ust be answered at one place in                                 |
|                    | OR(अथवा)   |               | sequence, otherwise   | they may not be evaluated.                                      |
|                    | he advantage of digital con<br>log communication.        | mmunication   |   | उत्तर एक ही जगह (लगातार क्रम में)<br>वे जाँचे नहीं जा सकते हैं। |
| ऐनालॉग<br>क्या लाभ | संचार की तुलना में डिजि<br>है?                           | टल संचार के   |   | and margin indicate marks.<br>क पूर्णाक के सूचक हैं।            |
|                    |  |               |   | P.T.O   |

| 51402        | SI 7E   | 040 | 5 04035                                | 51402  |
|--------------|---|-----|--|--------|
|              | ОВ(अञ्चया)  |     | GROUP - A                              |        |
|              | What are external noise classify them.                              |     | gniwollof and mort rewers allowing     | 1. Cho |
|              |   |     | 0 <b>2=07xI</b> : suc                  | oitqo  |
| ا <u>ک</u> ر | बाहय न्ओयाइज क्या है, इनका वर्गीकरण व                               |     | : किली रकनह कि फिक्की स्वर्थ :         | ÌрЊ    |
| 7            | Find the expression for noise temperature.                          | 2.  | The Frequency range of VLF is          | (i)    |
|              | न्ओयाइज तापकम के जिए व्यंजक का मान                                  |     | (a) 3-30 KH <sub>z</sub>               |        |
|              |   |     | (p) 3-30 CH <sup>x</sup>               |        |
|              | 0K(સડ્યવા)  |     | <sup>z</sup> HM 0٤-٤ (٥)               |        |
|              |   |     | (b) None of these                      |        |
|              | .MA nany trion seal MA si yhan AM.                                  |     |  |        |
|              | ?ई फिडि रिफ किड्राधरिन् मक फि MA, MA                                |     | VLF की आवृत्ति न्न्न कि निर्णाह कि न्य | (i)    |
|              |   | ,   | ( <b>31) 3 44 30</b> KH <sup>5</sup>   |        |
|              | Discuss the cause and effects of various noi created in a receiver. | •9  | ( <b>4) 3 4 30</b> CH <sup>5</sup>     |        |
| <b>†</b>     |   |     | (ط) 3 ط 30 MH <sup>3</sup>             |        |
| በንነው         | कीर प्रभाव का वर्णन करें।<br>अगेर प्रभाव का वर्णन करें।             |     | हिन रेकि मिन्ह (ह)                     |        |

(q)  $B_3$ 

(c)  $B_{s}$  $\underline{B} \bigvee (d)$ 

(a) B

(11)

-----, where B is bandwidth in H<sub>2</sub>

The thermal noise is directly proportional to

# (ાંગલા) (ગ્રેલા)

s room? What do you mean by optimum reverberation of

र्ड तिहमम एक ? गार भि महर्भर मम्दीगाँध के प्रेमक मिकी

| 214( | 05   | 14   | O4032    | O4032                   | 3  | 21405         |
|------|--|--|----------|-------------------------|--|---------------|
| 3.   | OR<br>Draw the circuit diagram<br>and briefly explain.<br>बैलेन्सड मोडुलेटर का प<br>संक्षेप में विवेचना करें।<br>What are the basic elem<br>communication system.<br>रेडियो संचार प्रणाली के | ारिपथ चित्र खीचें औ                              | र<br>4   | ຊື່<br>(<br>(<br>(<br>( | अरमल न्ओयाइज——के समानुपा<br>ै जहां B बैन्ड चौड़ाई H₂ में है।<br>अ) B<br>ब) √B<br>स) B <sup>2</sup><br>द) B <sup>3</sup>  |               |
|      | होते है?   | (अथवा)<br>e figure and noise<br>ओयाइज तापक्रम की | અપયપ     | 1<br>(<br>(<br>(        | n a communication system noise<br>ikely to affect the Signal—<br>a) In the channel<br>b) At the channel<br>c) At the receiver<br>d) At the transmitter<br>d) At the source |               |
| 4.   | Prove that the power in<br>wave is given by $P_s = \frac{1}{4}$<br>have usual meanings.<br>साबित करे कि किसी A<br>बैन्ड कि शक्ति $P_s = \frac{1}{4}$ H<br>का सामान्य अर्थ है I               | $- P_c.M^2$ , where the term                     | rms<br>4 | ז<br>(<br>(<br>(        | अधिक प्रभावित होने की संभावना<br>होती है<br>अ) चैनल में<br>ब) रिसिवर पर<br>स) ट्रॅान्समीटर पर<br>द) स्त्रोत पर   | कहाँ<br>P.T.O |

| 00b - B                               | ево                        |       |               | $\frac{l}{mh} = T  (\textbf{P})$       |       |
|---------------------------------------|----------------------------|-------|---------------|--|-------|
|                                       |                            |       |               | $\frac{1}{mt^2} = T $ (FF)             |       |
|                                       |                            |       |               | मान छित्तना होगा?                      |       |
|                                       | (판) 500 ਪ<br>(판) 100 ਪ     |       | वि भिर्मात का | सीम्पलंग साहय में नाईक्यूस्त           | (vi)  |
|                                       | Q 004 (F)                  |       |               | mln                                    |       |
|                                       | Ωπ021 <b>(E)</b>           |       |               | $\frac{\Gamma}{m \hbar \pi} = T (b)$   |       |
| ान्त्रकी <i>फ्र-ई</i> मेइ कफ्रिन्ट्रि | फी स्पेस का इनर<br>होवा ई? | (xx)  |               | $\frac{\pi}{m} = T(3)$                 |       |
|                                       | Ω001 (b)                   |       |               | $\frac{I}{mh} = T(d)$                  |       |
|                                       | (b) 400 Ω<br>Ω 002 (c)     |       |               | $\frac{\Gamma}{mtc} = T(\mathfrak{s})$ |       |
|                                       | Ωπ021 (b)                  |       |               | is given by                            |       |
| edance of free space is               | qmi əiznirtni ədT          | (XX)  | uist internal | In sampling theorem the Nyq            | (vi)  |
| 13 51402                              |                            | O4032 | O4032         | 7                                      | 50717 |

#### 10010

Answer all Five Questions.

। <u>५ २७२६ के नि</u>ष्ट्र होंग किंग्र

total power in Am wave. Þ 2. Derive the relation between Carrier power and

। रेक त्रणीाष्ठ छो में क AM तरग के लिए बाहक शक्ति और कुल शक्ति

<sup>1</sup> smO 04 (o)  $\sin 20 \text{ Cm}^{-1}$ <sup>1</sup> smO 08 (a) temperature. in air for per degree centigrade rise in What is the increase in velocity of sound (A)

<sup>1</sup> smO 00 (b)

 $\frac{l}{ml\pi} = T$  (5)

 $\frac{\pi}{\mathrm{mf}} = \mathrm{T}$  (FF)

**4***X***2**=**5**0

| 21405   | 12   | O4032         | O4032 | 5 21405   |
|---------|--|---------------|-------|---|
| (xviii) | <ol> <li>1 dB is equivalent to</li> <li>(a) 8.6 N</li> <li>(b) 0.115 N</li> <li>(c) 10 N</li> <li>(d) None of these</li> </ol>   |               | (v)   | ध्वनि का वेग प्रत्येक डिग्री सेंटीग्रेड तापकम<br>बढ़ने से कितना बढ़ता है?<br>(अ) 80 Cms <sup>-1</sup><br>(ब) 30 Cms <sup>-1</sup><br>(स) 40 Cms <sup>-1</sup><br>(द) 60 Cms <sup>-1</sup> |
| (xviii) | ) 1 dB किसके समतुल्य होता है<br>(अ) 8.6 N<br>(ब) 0.115 N<br>(स) 10 N   | ?             | (vi)  | In TV transmission video signal is<br>modulated<br>(a) Frequency<br>(b) Amplitude<br>(c) Phase<br>(d) Angle   |
| (xix)   | <ul> <li>(द) इनमें से कोई नहीं</li> <li>The Separation of picture and</li> <li>(a) 5 MH<sub>z</sub></li> <li>(b) 5.5 MH<sub>z</sub></li> <li>(c) 4.5 MH<sub>z</sub></li> </ul> | l sound 9F is | (vi)  | TV प्रसारण में विडियो सिगंनल का मोडुलेश<br>किसके द्वारा होता है?<br>(अ) आवृत्ति<br>(ब) आयाम<br>(स) कला<br>(द) कोण   |
|         | (d) 10 $MH_z$  |               | (vii) | If $Pc = carrier power$ , $Ps = side bands power$ ,<br>m = modulation index, then   |
| (xix)   | तस्वीर और ध्वनि के लिए 9F<br>कितना होता है?<br>(अ) 5 MH <sub>z</sub><br>(ब) 5.5 MH <sub>z</sub><br>(स) 4.5 MH <sub>z</sub><br>(द) 10 MH <sub>z</sub>                           | का अन्तर      |       | (a) $P_s = \frac{1}{2} m^2 P_c$<br>(b) $P_s = \frac{1}{4} m^2 P_c$<br>(c) $P_s = \frac{1}{3} m^2 P_c$<br>(d) None of these  |

**P.T.O** 

| ? Isngis  |       | m = modulation index, then,  |        |
|---|-------|--|--------|
| Which of the following require synchronizing  | (шлх) | If $P_{\rm T}$ = total power, $P_{\rm C}$ = carrier power, and   | (iiiv) |
|   |       |  |        |
| (로) \\ S & B B K  |       | हिम ड्रेकि मि मिम्ड्र (ठ)  |        |
| (AA) 269B   |       |  |        |
| $(\underline{a}) \wedge \underline{4} \underline{K} \underline{L} \underline{K} \underline{B}$            |       |  |        |
| (34) † K L K B  |       | (41) $\mathbf{b}^{2} = \frac{3}{1} \mathbf{m}_{5} \mathbf{b}^{C}$  |        |
| कितना होता है?  |       | +  |        |
| नाम क  म्मने ल्ड्रायफ <del>्नि</del> म अफ़्तीप्र क्रिकी   | (ivx) | $(\underline{\mathbf{a}}) \mathbf{b}^{\mathrm{z}} = \frac{\mathbf{d}}{\mathbf{J}} \mathbf{m}_{\mathrm{z}} \mathbf{b}^{\mathrm{c}}$ |        |
|   |       |  |        |
| (q) ∧ <u></u> (q) |       | (31) $\mathbf{b}^{\mathrm{a}} = \frac{\Sigma}{1} \mathbf{m}_{\mathrm{b}} \mathbf{b}^{\mathrm{c}}$                                  |        |
| (c) 5 c 9 B   |       | L  |        |
| (p) $\sqrt{t K T B B}$  |       | श्रवित तथा m = मोडुलेशन गुणांक, तब   |        |
| (a) 4 K T R B   |       |  |        |
| Voise voltage in a resistor is given by   | (ivx) | अगर $P_{c}=p$ ्रेप्रि $T_{c}=P_{c}$ (त्रियर श्रार्थ, $P_{S}=q_{c}$   | (iiv)  |
|   |       |  |        |
| 11 51402  | O4032 | e O4032  | 21402  |

essent to snoN (b)

 $(c) \mathbf{h}^{\mathrm{L}} = \frac{4}{1} \mathbf{m}^{\mathrm{L}} \mathbf{h}^{\mathrm{C}}$ 

 $(p) \mathbf{h}^{\mathrm{L}} = \frac{5}{1} \mathbf{m}_{5} \mathbf{h}^{\mathrm{C}}$ 

 $(\mathfrak{g}) \mathbf{P}_{\mathrm{T}} = \mathbf{P}_{\mathrm{C}} (\mathbf{1} + \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{1}})^{\mathrm{T}}$ 

- कि मिनन सिंग सिंग सिंग कि (iivx) svods sht to IIA(b) $MOM(\mathfrak{d})$ MAP(d)MAG (b) is lange
- अविध्यकता होती है?
- Юдд **(Ю)**
- MA9 (p)

- (Ħ) PDW
- ்ச ரிசு நைழ்மு (ந)

| 21405 | 10  | O4032 |
|-------|---|-------|
| (xiv) |   | ns    |
|       | (a) Amplitude<br>(b) Fragueney                    |       |
|       | <ul><li>(b) Frequency</li><li>(c) Phase</li></ul> |       |
|       | (d) Both (a) and (c)                              |       |
|       | (a) 2011 (a) and (b)                              |       |
| (xiv) | मनुष्य द्वारा निर्मित न्ओयाइज——विच                | लन    |
|       | के कारण होता है।                                  |       |
|       | (अ) आयाम  |       |
|       | (ब) आवृत्ति                                       |       |
|       | (स) कला   |       |
|       | (द) (अ) और (स) दोनों                              |       |
|       |   |       |
| (xv)  | Communication is the process of                   |       |
|       | (a) Keeping in touch                              |       |
|       | (b) Broadcasting                                  |       |
|       | (c) Exchanging information                        |       |
|       | (d) Entertainment by electronics                  |       |
| (xv)  | संचार एक विधि है जिसमें                           |       |
|       | (अ) एक दुसरे के सर्म्पक में रहते है               |       |
|       | (ब) ब्रोडकास्टिंग होता है।                        |       |
|       | (स) सूचना का आदान प्रदान होता है                  |       |
|       | (द) इलेक्ट्रॉनिक्स से मनोरजन होता                 | है    |
|       |   |       |
|       |   |       |

(viii) अगर  $P_T = a_{3}er$ शक्ति,  $P_C = a^{3}R v v$  शक्ति तथा m= मोडुलेशन इन्डेक्स, तब (3)  $P_T = P_C (1 + \frac{m^2}{2})$ (a)  $P_T = \frac{1}{2} m^2 P_C$ (v)  $P_T = \frac{1}{4} m^2 P_C$ (v)  $P_T = \frac{1}{4} m^2 P_C$ (v)  $v = \frac{1}{4} m^2 P_C$ (v)  $v = \frac{1}{4} m^2 P_C$ (v)  $v = \frac{1}{4} m^2 P_C$ 

7

(ix) For best result, m is

O4032

- (a) Less than one
- (b) Less than one but close to unity
- (c) Equal to one
- (d) More than one
- (ix) सबसे अच्छे परिणाम के लिए m का मान कितना होगा?
  - (अ) एक (01) से कम
  - (ब) एक से कम, मगर एक के करीब
  - (स) एक के बराबर
  - (द) एक से अधिक

21405

| 50712 | 6   | O4032  | 8 04032                                      | 51402 |
|-------|---|--------|--|-------|
|       | Pre-emphasis circuit                                    | (iix)  | Over modulation results in                   | (x)   |
|       | (a) Before modulation                                   |        | (a) Weakening of signal                      |       |
|       | (b) After modulation                                    |        | (b) Excessive carrier power                  |       |
|       | (c) Before detection                                    |        | (c) Strenthaning of signal                   |       |
|       | (d) After deterction                                    |        | (d) Distortion                               |       |
|       | கக மற்றுக மற்று மழித்து                                 |        |  |       |
|       | क्रिम्ट्रिम्स परिपथ का उपयोग कब<br>२२ म्हस्ट            | (IIX)  | अ)वर मोङ्लेशन का परिणाम क्या होता है?        | (x)   |
|       | होता है?<br>हमा के स्वर्तन्त्रक (फ)                     |        | (अ) सिग्न्स का कम्प्रमें (अ)                 |       |
|       | (अ) मॉर्डलेशन से महले                                   |        | (ब) अधिक केरियर पावर                         |       |
|       | (ब) मार्डलेशन के बाद<br>(म)                             |        | (स) सिंग्नल का आक्तिशाली होना                |       |
|       | (स) फिर्म से पहले (स)                                   |        | ь <b>म्र</b> म्र्राऊग्री ( <b>२</b> )        |       |
|       | ह) कि स्वार के बाद                                      |        |  |       |
|       | vlleranan și azion reviener ciher e nl                  | (x)    | Which of the following has higher frequency  | (ix)  |
|       | In a radio receiver, noise is generally<br>developed at | (IIIX) | range of broadcast                           |       |
|       | (a) 9F stage  |        | $MA(\mathfrak{s})$                           |       |
|       | ester A(d)  |        | MA (d)                                       |       |
|       | (c) RF stage  |        | Mq (ɔ)                                       |       |
|       | (d) Receiving antenna                                   |        | esent to show (b)                            |       |
|       |   |        |  |       |
|       | रेडियों रिसिवर में न्ओयाइज सामान्यतः-                   | (iiix) | ह्नमें में मिक्समें प्रसारण के आवृत्ति रेन्ज | (ix)  |
|       | में उत्पन्न होता है।                                    |        | अहाक झोपी है?                                |       |
|       | <b>(अ)</b>  |        | MA (16)                                      |       |
|       | <b>(ब)</b> AF स्टेज                                     |        | (a) FM                                       |       |
|       | <b>(म)</b> ४४ स्ट्रे <u>व</u>                           |        | Mg (Ħ)                                       |       |
|       | ान्डनीप्रं म <mark>हीसिरी (</mark> इ)                   |        | (व) इनमें से कोई नहीं                        |       |

21405

9. Enumerate the points of special concern while recording is in progress. Explain with example. 8

17

रिकॉडिंग के समय किन–किन बातों पर ध्यान ? रखा जाता है? उदाहरण के साथ समझाएँ।

## OR(अथवा)

Explain as to why PCM is more noise resistant than other forms of pulse modulation.

PCM अन्य प्रकार के पल्स मोडुलेशन से क्यों ज्यादा न्ओयाइज प्रतिरोधी होता है? व्याख्या करें।

**10.** Derive an expression for modulation index and total power of AM wave.

मोडुलेशन इन्डेक्स तथा AM तरग के लिए कुल शक्ति के लिऐ व्यजक प्राप्त करें।

### OR(अथवा)

Draw the block diagram of Superhetrodyne receiver and explain the importance of local oscillator.

सुपर हेट्रोडाईन का आरेख खण्ड खीचें एवं स्थानीय ऑस्लिटर के महत्व की विवेचना करें।

9. Enumerate the points of special concern while recording is in progress. Explain with example. 8

रिकॉडिंग के समय किन–किन बातों पर ध्यान ? रखा जाता है? उदाहरण के साथ समझाएँ।

## OR(अथवा)

Explain as to why PCM is more noise resistant than other forms of pulse modulation.

PCM अन्य प्रकार के पल्स मोडुलेशन से क्यों ज्यादा न्ओयाइज प्रतिरोधी होता है? व्याख्या करें।

**10.** Derive an expression for modulation index and total power of AM wave.

मोडुलेशन इन्डेक्स तथा AM तरग के लिए कुल शक्ति के लिऐ व्यजक प्राप्त करें।

## OR(अथवा)

Draw the block diagram of Superhetrodyne receiver and explain the importance of local oscillator.

सुपर हेट्रोडाईन का आरेख खण्ड खीचें एवं स्थानीय ऑस्लिटर के महत्व की विवेचना करें।

8

8

|            | * * *   |                            | * * *               |                        |                                 |
|------------|---|----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|
|            |   |                            |                     |                        | ( )                             |
|            |   | (o) FDM<br>(o)             |                     |                        | MDT (d)<br>MD7 (o)              |
|            |   | <b>вћет</b> (в)<br>ИОТ (d) |                     |                        | (a)<br>মের্মি (b)               |
|            | । <sup>'</sup> துதி ரிமுதி நாஜி நாற்<br>                      | •                          | <u>वे</u> ।         | து முறை நா <u>த</u> ித | •                               |
|            |   | (c) FDM                    |                     |                        | (c) FDM                         |
|            |   | MOT(d)                     |                     |                        | MOT(d)                          |
| .ອີເ       | iwollof of the followin<br>ef note on any two of the followin | ird ətirW<br>əsioN (a)     | .gniwollof          | te on any two of the   | Write brief no<br>(a) Noise     |
|            | ОВ(अक्षया)  |                            |                     | <b>0B</b> (अञ्चया)     |                                 |
|            |   |                            |                     |                        |                                 |
| <u>ک</u> ط | डिजिटल मोडुलेशन की व्याख्या                                   | <u>र्म</u>                 | खाख्या क <u>र</u> े | ० कि माडुलेशन की       | <del>ப</del> ிதி <del>ட</del> ் |
| 8          | escribe digital modulations.                                  | 11. Briefly d              | <b>8</b> .st        | noitalubom latigib əc  | 11. Briefly describ             |
| 50717      | 81  | O4032                      | O4032               | 81                     | 50712                           |
|            |   |                            |                     |                        |                                 |